



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2009/माघ 21, 1930

No. 268]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2009/MAGHA 21, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2009

का.आ. 440(अ).—यतः, मै. एन्फील्ड एनर्जी लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल राज्य में कान्क्सा, पानागढ़ बर्दवान जिले में सौर ऊर्जा उपकरण/सेल सहित गैर-परम्परागत ऊर्जा हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने पश्चिम बंगाल राज्य में कान्क्सा, पानागढ़, बर्दवान जिले में सौर ऊर्जा उपकरण/सेल सहित गैर-परम्परागत ऊर्जा हेतु क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास एवं प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 26 जून, 2008 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में कान्क्सा, पानागढ़ बर्दवान जिले में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

क्र. सं.	मौजा	प्लॉट सं.	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पश्चिम गंगारामपुर	101	0.10
2.	-वही-	102	0.06
3.	-वही-	102/250	0.09
4.	-वही-	103	0.09
5.	-वही-	104	0.24
6.	-वही-	105	0.49
7.	-वही-	106	0.20
8.	-वही-	107	0.07
9.	-वही-	108	0.09
10.	-वही-	109	0.09
11.	-वही-	110	0.23
12.	-वही-	111	0.07
13.	-वही-	112	0.40
14.	-वही-	113	0.09
15.	-वही-	114	0.07
16.	-वही-	119	0.27
17.	-वही-	479	0.15
18.	-वही-	479/679	0.20
19.	-वही-	481	0.92
20.	-वही-	486	0.12
21.	-वही-	487	0.55
22.	-वही-	488	0.48
23.	-वही-	488/680	0.16

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	पश्चिम गंगारामपुर	489	0.05
25.	-वही-	490	0.20
26.	-वही-	491	0.26
27.	-वही-	492	0.07
28.	-वही-	493	0.04
29.	-वही-	494	0.09
30.	-वही-	495	0.10
31.	-वही-	496	0.17
32.	-वही-	497	0.15
33.	-वही-	498	0.09
34.	-वही-	501	0.18
35.	-वही-	502	0.06
36.	छोटो रामचन्द्रपुर	1	0.59
37.	-वही-	2	0.50
38.	-वही-	3	0.61
39.	-वही-	3/1513	0.32
40.	-वही-	5	0.06
41.	-वही-	13	0.60
42.	-वही-	14	0.09
43.	-वही-	16	1.99
44.	-वही-	17	1.80
45.	-वही-	18	1.58
46.	-वही-	19	0.40
47.	-वही-	20	0.32
48.	-वही-	21	1.71
49.	-वही-	21/1533	1.95
50.	-वही-	21/1534	0.40
51.	-वही-	21/1535	0.16
52.	-वही-	22	0.50
53.	-वही-	23	0.30
54.	-वही-	24	0.27
55.	-वही-	25	2.13
56.	-वही-	29	0.02
57.	-वही-	30	0.69
58.	-वही-	31	0.08
59.	-वही-	32	0.18
60.	-वही-	36	0.07
61.	-वही-	37	0.53
62.	-वही-	38	0.05
63.	-वही-	39	0.39
64.	-वही-	40	0.02
कुल योग		2500	
		अर्थात् 10.12 हेक्टर	

[फा. सं. 2/716/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2009

S.O. 440(E).—Whereas M/s. Enfield Energy Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for non-conventional energy including solar energy equipment/cell at Kanksa, Panagarh, District Burdwan in the State of West Bengal;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval on 26th June, 2008 under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development and operation of the sector specific Special Economic Zone for non-conventional energy including solar energy equipment/cell at Kanksa, Panagarh, District Burdwan in the State of West Bengal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Kanksa, Panagarh, District Burdwan in the State of West Bengal, comprising the survey numbers and the area given in the table below, as a Special Economic Zone, namely : —

TABLE

Sl. No.	Mouza	Plot No.	Area (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paschim Gangarampur	101	0.10
2.	-do-	102	0.06
3.	-do-	102/250	0.09
4.	-do-	103	0.09
5.	-do-	104	0.24
6.	-do-	105	0.49
7.	-do-	106	0.20
8.	-do-	107	0.07
9.	-do-	108	0.09
10.	-do-	109	0.09
11.	-do-	110	0.23
12.	-do-	111	0.07
13.	-do-	112	0.40
14.	-do-	113	0.09
15.	-do-	114	0.07
16.	-do-	119	0.27
17.	-do-	479	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Paschim Gangarampur	479/679	0.20
19.	-do-	481	0.92
20.	-do-	486	0.12
21.	-do-	487	0.55
22.	-do-	488	0.48
23.	-do-	488/680	0.16
24.	-do-	489	0.05
25.	-do-	490	0.20
26.	-do-	491	0.26
27.	-do-	492	0.07
28.	-do-	493	0.04
29.	-do-	494	0.09
30.	-do-	495	0.10
31.	-do-	496	0.17
32.	-do-	497	0.15
33.	-do-	498	0.09
34.	-do-	501	0.18
35.	-do-	502	0.06
36.	Choto Ramchandrapur	1	0.59
37.	-do-	2	0.50
38.	-do-	3	0.61
39.	-do-	3/1513	0.32
40.	-do-	5	0.06
41.	-do-	13	0.60
42.	-do-	14	0.09
43.	-do-	16	1.99
44.	-do-	17	1.80
45.	-do-	18	1.58
46.	-do-	19	0.40
47.	-do-	20	0.32
48.	-do-	21	1.71
49.	-do-	21/1533	1.95
50.	-do-	21/1534	0.40
51.	-do-	21/1535	0.16
52.	-do-	22	0.50
53.	-do-	23	0.30
54.	-do-	24	0.27
55.	-do-	25	2.13
56.	-do-	29	0.02
57.	-do-	30	0.69
58.	-do-	31	0.08
59.	-do-	32	0.18

(1)	(2)	(3)	(4)
60.	Choto Ramchandrapur	36	0.07
61.	-do-	37	0.53
62.	-do-	38	0.05
63.	-do-	39	0.39
64.	-do-	40	0.02
Total			25.00

[F.No.2/716/2006-SEZ]

ANIL G. MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2009

का.आ. 441(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ मै. एनफील्ड एनर्जी लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल राज्य में कान्क्सा, पानागढ़, बर्दवान जिले में सौर ऊर्जा उपकरण/सेल सहित गैर-परम्परागत ऊर्जा हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त —अध्यक्ष,
 - निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसके नामिती जिनका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
 - क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, कोलकाता —सदस्य, पदेन
 - विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या उनका नामिती जिनका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा। —सदस्य, पदेन
 - विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उनका नामिती जिनका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा। —सदस्य, पदेन
 - निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार —सदस्य, पदेन
 - पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामित किए गए दो अधिकारी, जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा। —सदस्य, पदेन
 - मै. एनफील्ड एनर्जी लिमिटेड (विकासकर्ता) विशेष आमंत्रित।
2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[फा. सं. 2/716/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2009

S.O. 441(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the non-conventional energy including solar energy equipment/cell Special Economic Zone at Kanksa, Panagarh, District Burdwan, West Bengal developed by M/s. Enfield Energy Limited for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:—

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Development Commissioner of the Special Economic Zone | — Chairperson,
Ex-officio |
| 2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India | — Member,
Ex-officio |
| 3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Kolkata | — Member,
Ex-officio |
| 4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | — Member,
Ex-officio |
| 5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | — Member,
Ex-officio |
| 6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India | — Member
Ex-officio |

7. Two officers, not below the rank of— Member,
Joint Secretary, to be nominated Ex-officio
by the Government of West Bengal

8. Representative of M/s Enfield — Member,
Limited (Developer) Ex-officio

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[F. No. 2/716/2006-SEZ]

ANIL G. MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2009

का.आ. 442(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से मै. एन्फील्ड एनर्जी लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल राज्य में कान्क्सा, पानागढ़, बर्दवान जिले में सौर ऊर्जा उपकरण/सेल सहित गैर-परम्परागत ऊर्जा हेतु विकसितविशिष्ट विशेष आर्थिक जोन को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. 2/716/2006-एसईजेड]

अनिल जी. मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2009

S.O. 442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby appoints the 10th day of February, 2009 as the date from which the non-conventional energy including solar energy equipment/cell Special Economic Zone at Kanksa, Panagarh, District Burdwan, West Bengal developed by M/s. Enfield Energy Limited shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962.

[F. No. 2/716/2006-SEZ]

ANIL G. MUKIM, Jt. Secy.